

Mat

Chapter 17

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

- 1 Καὶ μεθ' ἡμέρας ἕξ, παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς, τὸν Πέτρον καὶ
और -के-बाद दिन छे, सअथ-लेत-है - इंसोउस - पेत्रोस-को और
[G2532](#) [G3326](#) [G2250](#) [G1803](#) [G3880](#) [G3588](#) [G2424](#) [G3588](#) [G4074](#) [G2532](#)
- Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς
इअकबोस-को और इअन्नस-को - भै उसके और ले-जअत-है उनहे -पर
[G2385](#) [G2532](#) [G2491](#) [G3588](#) [G0080](#) [G0846](#) [G2532](#) [G0399](#) [G0846](#) [G1519](#)
- ὄρος ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν.
पहद ओओनच -मेइन अकेले
[G3735](#) [G5308](#) [G2596](#) [G2398](#)

छः दिन बाद यीशु, पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर एकान्त में ऊँचे पहाड़ पर गया।

- 2 καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
और रोओप-बदल-गय -के-सअमने उनके और चमक - मुख उस्क
[G2532](#) [G3339](#) [G1715](#) [G0846](#) [G2532](#) [G2989](#) [G3588](#) [G4383](#) [G0846](#)
- ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἰμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς.
जैसे - सुरज - और वस्त्र उसके हो-गये सफ़ेद जैसे - प्रकश
[G5613](#) [G3588](#) [G2246](#) [G3588](#) [G1161](#) [G2440](#) [G0846](#) [G1096](#) [G3022](#) [G5613](#) [G3588](#) [G5457](#)

वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया। उसका मुख सूरज के समान दमक उठा और उसके वस्त्र ऐसे चमचमाने लगे जैसे प्रकाश।

- 3 καὶ ἰδοὺ, ὤφθη αὐτοῖς Μωϋσῆς καὶ Ἡλίας, συλλαλοῦντες μετ' αὐτοῦ.
और देखो दिखयि-दिये उनहे मयसस और लअस बअतेइन-करते-हुए -के-सअथ उनके
[G2532](#) [G3708](#) [G3708](#) [G0846](#) [G3475](#) [G2532](#) [G2243](#) [G4814](#) [G3326](#) [G0846](#)

फिर अचानक मूसा और एलियाह उनके सामने प्रकट हुए और यीशु से बात करने लगे।

- 4 ἀποκριθεὶς δὲ, ὁ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, καλὸν ἐστὶν ἡμῶς
उत्तर-देकर और - पेत्रोस-ने कह - इंसोउस-से प्रभु अछ है हमरे-लिये
[G0611](#) [G1161](#) [G3588](#) [G4074](#) [G3004](#) [G3588](#) [G2424](#) [G2962](#) [G2570](#) [G1510](#) [G1473](#)
- ὧδε εἶναί. εἰ θέλεις, ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς: σοὶ μίαν, καὶ
यहन रेहन यदि चअहो बनौन यहन तेएन तम्बु तेरे-लिये एक और
[G5602](#) [G1510](#) [G1487](#) [G2309](#) [G4160](#) [G5602](#) [G5140](#) [G4633](#) [G4771](#) [G1520](#) [G2532](#)
- Μωϋσεῖ μίαν, καὶ Ἡλίᾱ μίαν.
मयसस-के-लिये एक और लअस-के-लिये एक
[G3475](#) [G1520](#) [G2532](#) [G2243](#) [G1520](#)

यह देखकर पतरस यीशु से बोला, “प्रभु, अच्छा है कि हम यहाँ हैं। यदि तू चाहे तो मैं यहाँ तीन मंडप बना दूँ-एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए।”

5 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ, νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς; καὶ ἰδοὺ,
 अभी उनके बोलते-हुए देखो बदल चमकेएले छअय उनहे और देखो
[G2089](#) [G0846](#) [G2980](#) [G3708](#) [G3507](#) [G5460](#) [G1982](#) [G0846](#) [G2532](#) [G3708](#)

φωνῆ ἔκ τῆς νεφέλης, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου, ὁ
 अवअज़ -से - बदल केहति-हुइ यह है - पुत्र मेर -
[G5456](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3507](#) [G3004](#) [G3778](#) [G1510](#) [G3588](#) [G5207](#) [G1473](#) [G3588](#)

ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα; ἀκούετε αὐτοῦ!
 प्रिय -मेइन जिस्मे प्रसन्न-होओन सुनो उस्कि
[G0027](#) [G1722](#) [G3739](#) [G2106](#) [G0191](#) [G0846](#)

पतरस अभी बात कर ही रहा था कि एक चमकते हुए बादल ने आकर उन्हें ढक लिया और बादल से आकाशवाणी हुई, “यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिस से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसकी सुनो!”

6 καὶ ἀκούσαντες, οἱ μαθηταὶ ἔπασαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ
 और सुनकर - चले गिरे -पर मुख अपने और
[G2532](#) [G0191](#) [G3588](#) [G3101](#) [G4098](#) [G1909](#) [G4383](#) [G0846](#) [G2532](#)

ἐφοβήθησαν σφόδρα.
 दरे बहुत
[G5399](#) [G4970](#)

जब शिष्यों ने यह सुना तो वे इतने सहम गये कि धरती पर औंधे मुँह गिर पड़े।

7 καὶ προσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀψάμενος αὐτῶν, εἶπεν, Ἐγέρθητε, καὶ
 और अअये - इसोउस और छुकर उनहे कह उथो और
[G2532](#) [G4334](#) [G3588](#) [G2424](#) [G2532](#) [G0680](#) [G0846](#) [G3004](#) [G1453](#) [G2532](#)

μὴ φοβεῖσθε.
 मत दरो
[G3361](#) [G5399](#)

तब यीशु उनके पास गया और उन्हें छूते हुए बोला, “डरो मत, खड़े होवो।”

8 ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, οὐδένα εἶδον εἰ μὴ αὐτὸν
 उथकर और - अअनखेइन अपनि किसि-को-नहिन देख सिवय - उनहे
[G1869](#) [G1161](#) [G3588](#) [G3788](#) [G0846](#) [G3762](#) [G3708](#) [G1487](#) [G3361](#) [G0846](#)

Ἰησοῦν μόνον.
 इसोउस-को अकेले
[G2424](#) [G3440](#)

जब उन्होंने अपनी आँखें उठाई तो वहाँ बस यीशु को ही पाया।

9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἔκ τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
 और उतरते-हुए उनके -से - पहाद अअदेश-दिय उनहे - इसोउस-ने
[G2532](#) [G2597](#) [G0846](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3735](#) [G1781](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2424](#)

λέγων, Μηδενὶ εἶπητε τὸ ὄραμα, ἕως οὔ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου
 केहते-हुए किसि-को-नहिन बतओ - दरशन जब-तक कि - पुत्र -क मनुश्य
[G3004](#) [G3367](#) [G3004](#) [G3588](#) [G3705](#) [G2193](#) [G3739](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G0444](#)

ἔκ νεκρῶν ἐγερθῆ.
 -से म्रितोन उथ-न-जअये
[G1537](#) [G3498](#) [G1453](#)

जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें आदेश दिया, “जो कुछ तुमने देखा है, तब तक किसी को मत बताना जब तक मनुष्य के पुत्र को मरे हुआँ में से फिर जिला न दिया जाये।”

10 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταί, λέγοντες, Τί οὖν οἱ γραμματεῖς
 और पूछ उनसे - चेलोन-ने केहते-हुए, क्योन फिर - शअस्त्रिगन
[G2532](#) [G1905](#) [G0846](#) [G3588](#) [G3101](#) [G3004](#) [G5101](#) [G3767](#) [G3588](#) [G1122](#)

λέγουσιν ὅτι Ἡλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον?
 केहते-हैन कि ँलअस-को जरुरि-है अअन पेहले
[G3004](#) [G3754](#) [G2243](#) [G1163](#) [G2064](#) [G4412](#)

| फिर उसके शिष्यों ने उससे पूछा, “यहूदी धर्मशास्त्री फिर क्यों कहते हैं, एलियाह का पहले आना निश्चित है?”

11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν, Ἡλίας μὲν ἔρχεται, καὶ ἀποκαταστήσει πάντα.
 - और उत्तर-देकर कह ँलअस तो अअत-है और बहल-करेग सब
[G3588](#) [G1161](#) [G0611](#) [G3004](#) [G2243](#) [G3303](#) [G2064](#) [G2532](#) [G0600](#) [G3956](#)

| उत्तर देते हुए उसने उनसे कहा, “एलियाह आ रहा है, वह हर वस्तु को व्यवस्थित कर देगा।

12 λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι Ἡλίας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν,
 केहत-होओन और तुमसे कि ँलअस पेहले-हि अअ-चुक और नहिन पेहचअन उसे
[G3004](#) [G1161](#) [G4771](#) [G3754](#) [G2243](#) [G2235](#) [G2064](#) [G2532](#) [G3756](#) [G1921](#) [G0846](#)

ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν. οὕτως καὶ, ὁ Υἱὸς τοῦ
 बलकि किय -मेइन उसके-सअथ जितन चअह ऐसे-हि और - पुत्र -क
[G0235](#) [G4160](#) [G1722](#) [G0846](#) [G3745](#) [G2309](#) [G3779](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#)

ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ' αὐτῶν.
 मनुश्य होने-वल-है दुख-सेहन -दवर उनके
[G0444](#) [G3195](#) [G3958](#) [G5259](#) [G0846](#)

| किन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलियाह तो अब तक आ चुका है। पर लोगों ने उसे पहचाना नहीं। और उसके साथ जैसा चाहा वैसा किया। उनके द्वारा मनुष्य के पुत्र को भी वैसा ही सताया जाने वाला है।”

13 τότε συνῆκαν οἱ μαθηταί ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ εἶπεν
 तब समझे - चले कि -के-बरे-मेइन इअन्नस - बत्तिस्तस कह
[G5119](#) [G4920](#) [G3588](#) [G3101](#) [G3754](#) [G4012](#) [G2491](#) [G3588](#) [G0910](#) [G3004](#)

αὐτοῖς.
 उनसे
[G0846](#)

| तब उसके शिष्य समझे कि उसने उनसे बपतिस्मा देने वाले यहून्ना के बारे में कहा था।

14 Καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον, προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν
 और अअने-पर -कि-ओर - भिर अअय उनके-पअस मनुश्य घुतने-तेक्त-हुअ
[G2532](#) [G2064](#) [G4314](#) [G3588](#) [G3793](#) [G4334](#) [G0846](#) [G0444](#) [G1120](#)

αὐτὸν,
 उनके-सअमने
[G0846](#)

| जब यीशु भीड़ में वापस आया तो एक व्यक्ति उसके पास आया और उसे दंडवत प्रणाम करके बोला,

15 καὶ λέγων, Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται, καὶ κακῶς
 और केहते-हुए प्रभु दय-कर मेरे - बेटे-पर क्योनकि मिरगि-क-मअरेएज-है और बुरि-तरह
[G2532](#) [G3004](#) [G2962](#) [G1653](#) [G1473](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3754](#) [G4583](#) [G2532](#) [G2560](#)

πάσχει; πολλάκις γὰρ πάπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ
 दुख-पअत-है अकसर क्योनकि गिरत-है -मेइन - अअग और अकसर -मेइन -
[G3958](#) [G4178](#) [G1063](#) [G4098](#) [G1519](#) [G3588](#) [G4442](#) [G2532](#) [G4178](#) [G1519](#) [G3588](#)

ὑδωρ.
 पअनि
[G5204](#)

“हे प्रभु, मेरे बेटे पर दया कर। उसे मिर्गी आती है। वह बहुत तड़पता है। वह आग में या पानी में अक्सर गिरता पड़ता रहता है।

16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυσνήθησαν αὐτὸν
और लअय उसे - चेलोन-के-पअस तेरे और नहिन सके उसे
[G2532](#) [G4374](#) [G0846](#) [G3588](#) [G3101](#) [G4771](#) [G2532](#) [G3756](#) [G1410](#) [G0846](#)

θεραπεῦσαι.

चनग-करन

[G2323](#)

“मैं उसे तेरे शिष्यों के पास लाया, पर वे उसे अच्छा नहीं कर पाये।”

17 ἀποκριθεὶς δὲ, ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη,
उत्तर-देकर और - इ०सोउस-ने कह ओ पिधि अविश्वसि और तेधि
[G0611](#) [G1161](#) [G3588](#) [G2424](#) [G3004](#) [G5599](#) [G1074](#) [G0571](#) [G2532](#) [G1294](#)

ἔως πότε μεθ' ὑμῶν ἔσομαι? ἔως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν? φέρετέ μοι
कब-तक कब -के-सअथ तुमहरे रहुनग कब-तक कब सहुनग तुमहे लओ मुझे
[G2193](#) [G4219](#) [G3326](#) [G4771](#) [G1510](#) [G2193](#) [G4219](#) [G0430](#) [G4771](#) [G5342](#) [G1473](#)

αὐτὸν ὧδε.

उसे यहन

[G0846](#) [G5602](#)

उत्तर में यीशु ने कहा, “अरे भटके हुए अविश्वासी लोगों, मैं कितने समय तुम्हारे साथ और रहूँगा? कितने समय मैं यूँ ही तुम्हारे साथ रहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ।”

18 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον,
और दअन्त उसे - इ०सोउस-ने और निकल -से उस्से - दुशत-अअतम
[G2532](#) [G2008](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2424](#) [G2532](#) [G1831](#) [G0575](#) [G0846](#) [G3588](#) [G1140](#)

καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκεῖνης.

और चनग-हुअ

[G2532](#) [G2323](#)

[G3588](#) [G3816](#)

[G0575](#) [G3588](#)

[G5610](#) [G1565](#)

फिर यीशु ने दुष्टात्मा को आदेश दिया और वह उसमें से बाहर निकल आयी। और वह लड़का तत्काल अच्छा हो गया।

19 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ' ἰδίαν, εἶπον, Διὰ
तब अअकर - चेलोन-ने - इ०सोउस-के-पअस -मेइन अकेले कह -के-करन
[G5119](#) [G4334](#) [G3588](#) [G3101](#) [G3588](#) [G2424](#) [G2596](#) [G2398](#) [G3004](#) [G1223](#)

τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυσνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό?

क्योन हुम नहिन सके

[G5101](#) [G1473](#) [G3756](#) [G1410](#)

[G1544](#)

[G0846](#)

फिर उसके शिष्यों ने अकेले में यीशु के पास जाकर पूछा, “हम इस दुष्टात्मा को बाहर क्यों नहीं निकाल पाये?”

20 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ,
- और केहते-हैन उनसे -के-करन - अलप-विश्वअस तुमहरे सच क्योनकि
[G3588](#) [G1161](#) [G3004](#) [G0846](#) [G1223](#) [G3588](#) [G3640](#) [G4771](#) [G0281](#) [G1063](#)

λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει
केहत-होओन तुमसे यदि हो विश्वअस जैसे दन रअयि-क कहोगे - पद-से
[G3004](#) [G4771](#) [G1437](#) [G2192](#) [G4102](#) [G5613](#) [G2848](#) [G4615](#) [G2046](#) [G3588](#) [G3735](#)

τούτω, Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ! καὶ μεταβήσεται; καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσεται ὑμῖν.
इस हत यहन-से वहन और हत-जअयेग और कुछ-नहिन असमभव-होग तुमहरे-लिये
[G3778](#) [G3327](#) [G1759](#) [G1563](#) [G2532](#) [G3327](#) [G2532](#) [G3762](#) [G0101](#) [G4771](#)

यीशु ने उन्हें बताया, “क्योंकि तुममें विश्वास की कमी है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुममें राई के बीज जितना भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो ‘यहाँ से हट कर वहाँ चला जा’ और वह चला जायेगा। तुम्हारे लिये असम्भव कुछ भी नहीं होगा।”

- 21 <Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ
यह और - जअत नहिन निकलति सिवय - -मेइन प्ररथन और
[G3778](#) [G1161](#) [G3588](#) [G1085](#) [G3756](#) [G1607](#) [G1487](#) [G3361](#) [G1722](#) [G4335](#) [G2532](#)

νηστεία>.

उपवअस

[G3521](#)

- 22 Συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
इकतथे-होते-हुए और उनके -मेइन - गलिलैअ कह उनसे - इसोस-ने
[G4962](#) [G1161](#) [G0846](#) [G1722](#) [G3588](#) [G1056](#) [G3004](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2424](#)

Μέλλει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων,
होने-वल-है - पुत्र -क मनुश्य सौनप-जअन -मेइन हअथोन मनुशयोन-के
[G3195](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G0444](#) [G3860](#) [G1519](#) [G5495](#) [G0444](#)

जब यीशु के शिष्य आए और उसके साथ गलील में मिले तो यीशु ने उनसे कहा, "मनुष्य का पुत्र, मनुष्यों के द्वारा ही पकड़वाया जाने वाला है,

- 23 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν; καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ
और मअरेनगे उसे और - तेएसे दिन उथअय-जअयेग और
[G2532](#) [G0615](#) [G0846](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5154](#) [G2250](#) [G1453](#) [G2532](#)

ἐλυπήθησαν σφόδρα.

दुखि-हुए

[G3076](#)

बहुत

[G4970](#)

जो उसे मार डालेंगे। किन्तु तीसरे दिन वह फिर जी उठेगा!" इस पर यीशु के शिष्य बहुत व्याकुल हुए।

- 24 Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοῦμ, προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα
अअने-पर और उनके -मेइन कफरनओउम अअये - - दिद्रचम
[G2064](#) [G1161](#) [G0846](#) [G1519](#) [G2584](#) [G4334](#) [G3588](#) [G3588](#) [G1323](#)

λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ, καὶ εἶπαν, Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ
लेने-वले - पेत्रोस-के-पअस और कह - गुरु तुमहर नहिन देत
[G2983](#) [G3588](#) [G4074](#) [G2532](#) [G3004](#) [G3588](#) [G1320](#) [G4771](#) [G3756](#) [G5055](#)

«τὰ» δίδραχμα?

- दिद्रचम

[G3588](#)

[G1323](#)

जब यीशु और उसके शिष्य कफरनहूम में आये तो मन्दिर का दो दरम कर वसूल करने वाले पतरस के पास आये और बोले, "क्या तेरा गुरु मन्दिर का कर नहीं देता?"

- 25 λέγει, Ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτόν ὁ Ἰησοῦς,
केहत-है हअन और अअने-पर -मेइन - घर पेहले-बोल उस्से - इसोस-ने
[G3004](#) [G3483](#) [G2532](#) [G2064](#) [G1519](#) [G3588](#) [G3614](#) [G4399](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2424](#)

λέγων, Τί σοι δοκεῖ, Σίμων? οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, ἀπὸ τίνων
केहते-हुए क्य तुझे लगत-है सिमन? - रअजअओन -कि धरति -से किनसे
[G3004](#) [G5101](#) [G4771](#) [G1380](#) [G4613](#) [G3588](#) [G0935](#) [G3588](#) [G1093](#) [G0575](#) [G5101](#)

λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον? ἀπὸ τῶν υἰῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν
लेते-हैन कर य चुनगि -से - बेत्योन अपनि य -से -
[G2983](#) [G5056](#) [G2228](#) [G2778](#) [G0575](#) [G3588](#) [G5207](#) [G0846](#) [G2228](#) [G0575](#) [G3588](#)

ἀλλοτρίων?

परअयोन

[G0245](#)

पतरस ने उत्तर दिया, "हाँ, वह देता है।" और घर में चला आया। पतरस से बोलने के पहले ही यीशु बोल पड़ा, उसने कहा, "शमौन, तेरा क्या विचार है? धरती के राजा किससे चुंगी और कर लेते हैं? स्वयं अपने बच्चों से या दूसरों के बच्चों से?"

26 εἰπόντος δέ, Ἄπο τῶν ἀλλοτρίων, ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἵραγε
 कहने-पर और -से - परअयोन कह उसे - इंसोउस-ने तो-फिर
[G3004](#) [G1161](#) [G0575](#) [G3588](#) [G0245](#) [G5346](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2424](#) [G0686](#)

ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί.
 सवतन्त्र हैन - बेते
[G1658](#) [G1510](#) [G3588](#) [G5207](#)

पतरस ने उत्तर दिया, “दूसरे के बच्चों से।” तब यीशु ने उससे कहा, “यानी उसके बच्चों को छूट रही है।

27 ἵνα δέ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν, βάλε
 तअकि और न थोकर-दिलअयेइन उनहे जकर -मेइन समुद्र दअल
[G2443](#) [G1161](#) [G3361](#) [G4624](#) [G0846](#) [G4198](#) [G1519](#) [G2281](#) [G0906](#)

ἄγκιστρον, καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἄρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα
 कन्त और - अअने-वलि पेहले मछलि उथ और खोलकर - मुख
[G0044](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0305](#) [G4412](#) [G2486](#) [G0142](#) [G2532](#) [G0455](#) [G3588](#) [G4750](#)

αὐτοῦ, εὐρήσεις στατήρα; ἐκεῖνον λαβὼν, δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.
 उसक पअयेग स्ततर उसे लेकर दे उनहे -के-बदले मेरे और तेरे
[G0846](#) [G2147](#) [G4715](#) [G1565](#) [G2983](#) [G1325](#) [G0846](#) [G0473](#) [G1473](#) [G2532](#) [G4771](#)

पर हम उन लोगों को नाराज़ न करें इसलिये झील पर जा और अपना काँटा फेंक और फिर जो पहली मछली पकड़ में आये उसका मुँह खोलना तुझे चार दरम का सिक्का मिलेगा। उसे लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे देना।”